

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने डिस्टिंगुइशड बजट प्रेजेंटेशन अवॉर्ड हासिल किया

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (29 अगस्त, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने लगातार सातवें वर्ष, अमेरिका और कॅनेडा की गवर्नमेंट फाइनेंस ऑफिसर्स एसोसिएशन (जी.एफ.ओ.ए.) (Government Finance Officers Association) (GFOA) से डिस्टिंगुइशड बजट प्रेजेंटेशन अवॉर्ड (Distinguished Budget Presentation Award) हासिल किया है।

यह अवॉर्ड, सरकारी बजट बनाने के उच्चतम सिद्धांतों को पूरी करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के लिए काफी बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। डिस्टिंगुइशड बजट प्रेजेंटेशन अवॉर्ड हासिल करने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने प्रभावशाली बजट पेश करने के लिए राष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्राप्त गाइडलाइनों को पूरा किया था। इन गाइडलाइन्स में शामिल हैं:

- नीति दस्तावेज;
- वित्तीय योजना;
- ऑपरेशन्स गाइड; और
- संचार डिवाइस।

यह अवॉर्ड हासिल करने के लिए, बजट दस्तावेजों की सभी चार श्रेणियों में और 14 आवश्यक मापदंडों में शानदार रेटिंग होनी आवश्यक है। 2022 के बजट में हेल्थ केयर विस्तार की हिमायत के लिए एक प्रतिशत लेवी शामिल है, यह प्रोग्रामों और सेवाओं को कायम रखता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड योगदान देता है और कारोबार में वृद्धि में सहायता करता है।

जी.एफ.ओ.ए. के बजट अवॉर्ड्स प्रोग्राम (Budget Awards Program) में 1,700 से अधिक भागीदार हैं। जी.एफ.ओ.ए., 21,000 से अधिक मेम्बर्स के लिए बेहतर पद्धतियां, प्रोफेशनल विकास, संसाधन और प्रेक्टिकल रिसर्च प्रदान करके, सरकारी वित्तीय व्यवस्था में उत्कृष्टता को आगे बढ़ाती है।

हवाले

“हमारे 2022 के बजट के लिए गवर्नमेंट फाइनेंस ऑफिसर्स एसोसिएशन से डिस्टिंगुइशड बजट प्रेजेंटेशन अवॉर्ड जीतना एक प्रभावशाली उपलब्धि है, जो सरकारी बजट बनाने के उच्चतम सिद्धांतों को पूरा करने में हमारे प्रयासों को दर्शाती है। यह अवॉर्ड, जो सिटी ने लगातार सात वर्षों तक हासिल किया है, ब्रैम्पटन के निवासियों और कारोबारों के लिए, वित्तीय पारदर्शिता और अच्छे शासन के प्रति हमारी समर्पित प्रतिबद्धता को सम्मानित करता है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, बजट कमेटी के चेयर

“बजट प्रक्रिया, काउंसिल, स्टाफ, निवासियों और हमारी कारोबार कम्युनिटी के बीच तालमेल है, जो ब्रैम्पटन के भविष्य को श्रेष्ठ बनाने में मदद करता है। हमें लगातार सातवें वर्ष के लिए इस डिस्टिंगुइशड अवॉर्ड से सम्मानित होने पर गर्व है।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, और वाइस चेयर, बजट कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“अच्छी-तरह से संचालित शहर होने के तौर पर, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल और स्टाफ, हमारी कम्युनिटी के लिए सबसे अच्छी सेवाएं प्रदान करने में श्रेष्ठता का प्रयास करते हैं। सरकारी बजट बनाने में यह प्रभावशाली अवॉर्ड मिलने पर हमें गर्व है और हम, ब्रैम्पटन के निवासियों और कारोबारों के लिए, इस वर्ष दूसरा उच्च-गुणवत्ता का, स्पष्ट और सुलभ बजट प्रस्ताव विकसित करने के लिए उत्साहित हैं।”

- *पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया
multiculturalmedia@brampton.ca